

**ए**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, धमदाहा**

पत्रांक...1176.../ दिनांक...21/7/22...

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल धमदाहा।

सेवा में,

सचिव-सह-शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी,  
बी0आर0आर0डी0ए0,  
बुद्ध मार्ग, पटना।

**विषय :- MMGSY -ST मद में राशि अधियाचना के संबंध में।**


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY-ST अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं में राशि की आवश्यकता है।


अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि आवंटित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- (1) अधियाचना की प्रति  
(2) मापी पुस्त की छाया प्रति

विश्वासभाजन

 21-07-22

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल धमदाहा,

  
21/07/22

## MMGSY (ST) Allotment Requisition


S.N	Year	Name Of Road	Name of Contractor (In English)	Administrative		Agreement Const. Work	Allotment Amount (in		Total Expenditure as per MIS	Value of Measurement (in Laos)	Current Demand (in Laos) (11-9)	Remarks
				Length (in Km)	Amount (in Laos)		Maintenance	Received (in Laos)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019-20	Siswa Purah Tola to Khujara Patti Road	Ashok Kumar	2.15	184.97000	167.94758	17.00506	0.00000	0.00000	66.62544	66.62544	
TOTAL RS				2.15	184.97000	167.94758	17.00506	0.00000	0.00000	66.62544	66.62544	

Rs. Sixty six lakh sixty two thousand five hundred forty four only.

RWD Works Division Dhamdaha

  
Sr. DAD

RWD Works Division Dhamdaha

  
Executive Engineer

1. खर्च का बिलान MIS से होना आवश्यक है।
2. अभियानित राशि का पथवार मासुयुस्त की प्रथम एवं अन्तिम पेज की अभिलेखित छाया प्रति संलग्न होना आवश्यक है।
3. पूर्व में निर्गत राशि का उभयपक्षीता प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है।
4. रोजगारवार सभी पथों का अभियानित एक साथ संलग्न आवश्यक है।
5. निर्गत राशि का डीप सीड सिम 15 दिन के अंदर बाड़ा कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (I) below Rule -150)

**Utilization Certificate**

**Mukhya Mantri Gram Sampark Yojna (ST)**

From,

Executive Engineer, RWD, Works Division, Dhamdaha

To,

Secretary cum Empowered Officer,  
BRIDA, Patna (Bihar)

Sl. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date	Amount Received (in Rs. lacs)	Particulars
1	Construction of Rural roads under Mukhya Mantri Gram Sampark Yojna (ST)	20/11-06-2015	72.00000	Certified that Rs 18426.10912 lacs received in favour of Executive Engineer, RWD, Works Division, Dhamdaha, Patna a sum of Rs. 18378.10763 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY (ST) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance is Rs.-48.00149
2		48/02-09-2015	241.94248	
3		73/22-12-15	194.69592	
4		77/30-12-15	219.55071	
5		113/04.03.16	313.14300	
6		122/17.03.16	21.10624	
7		130/20.05.16	229.40254	
8		147/18.07.16	43.85801	
9		162/01.09.16	35.56378	
10		202/30.12.16	7.43324	
11		19/17.02.17	182.16335	
12		24/25.02.17	73.61814	
13		38/21.03.17	56.22192	
14		42/24.03.17	45.32373	
15		46/29.03.17	151.48349	
16		62/15.05.17	79.28741	
17		66/19.05.17	37.28685	
18		70/31.05.17	54.71009	
19		82/06.07.17	11.98618	
20		86/13.07.17	42.95641	
21		102/17.08.17	137.64865	
22		108/31.08.17	66.53916	
23		145/28.11.17	129.39127	
24		09/11.01.18	20.85018	
25		25/07.02.18	48.07956	
26		39/19.02.18	20.79093	
27		103/16.05.18	55.53265	
28		43/28.03.19	62.25623	
29		68/30.04.19	63.96754	
30		74/22.05.19	425.81071	
31		81/03.07.2019	24.02772	
32		82/03.07.2019	140.67970	
33		97/25.07.19	312.75185	
34		103/02.09.19	1429.36657	
35		116/25.09.19	74.41480	
36		131/24.10.2019	356.38305	
37		150/13.12.2019	137.87031	
38		02/06.01.2020	3202.12543	
39		18/27.01.2020	609.14085	
40		46/03.03.2020	23.97086	
41		56/16.03.2020	907.09984	
42		67/24.03.2020	1154.76657	
43		96/03.06.20	425.97429	
44		107/25.06.20	482.99999	
45		112/13.07.20	170.30558	
46		120/07.08.20	231.12986	
47		131/26.08.20	132.73385	
48		188/01.12.20	562.81726	
49		28/01.03.21	590.52288	
50		77/05.06.21	482.96401	

1	174/29.10.21	256.40036
2	18.11.21	112.11100
3	25.01.22	2161.94184
4	10.03.22	128.30660
5	06.04.22	546.55403
6	12.04.22	22.92812
7	29.04.22	307.56493
8	16.06.22	319.15413
	Total	18451.67265
	Less-Surrender	25.56353
	G.Total	18426.10912

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

**Kind of Checks exercised:-**

- Works have been supervised by Executive engineer / Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

**3. Physical Progress achieved:-**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD works.

Sr.DAO

RWD, Works Division, Dhamdaha

Executive Engineer

RWD, works Division, Dhamdaha,